



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1944 (श10)
(सं0 पटना 1100) पटना, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022

सं0-प्र0-01-रा0(वि0)-08 / 19-5898 / एम0

खान एवं भूतत्व विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

द्वारा:-वित्त विभाग

पटना, दिनांक 01 दिसम्बर, 2022

विषय:-खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय के 04 खान निरीक्षकों के पदों के सृजन एवं पद सृजन के फलस्वरूप वार्षिक व्यय 30,68,736/- (तीस लाख अड़सठ हजार सात सौ छत्तीस रुपये) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय पर कहना है कि राज्य सरकार ने प्रशासी पदवर्ग समिति की अनुशंसा के आलोक में खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय के लिए 04 खान निरीक्षकों के पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त पदों के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय 30,68,736/- (तीस लाख अड़सठ हजार सात सौ छत्तीस रुपये) मात्र संभावित है। (व्यय विवरणी संलग्न)।

3. खान एवं भूतत्व सेवा के उक्त पदों के सृजन पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष 2853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001 निदेशन तथा प्रशासन-0001 खनन एवं भूतत्व स्थापना, माँग संख्या-29, विपत्र कोड-29- 2853020010001 (28 01) के स्थापना इकाई मद से विकलनीय होगा।
4. संबंधित कार्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी की जायेगी।
5. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 15.11.2022 की बैठक के मद संख्या-12 में स्वीकृत है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कमलेश कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1100-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>